

**APEX PUBLIC SCHOOL**  
**CLASS IX**  
**HALF YEARLY SYLLABUS (2026-27)**

**ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE**

Proses

1. How I Taught My Grandmother to Read
2. The Pot Maker
3. Winds of Change
4. Vitamin-M

Poems

1. Bharat Our Land
2. Gifts of Grace: Honouring Our Vocations
3. Canvas of Soil
4. I Cannot Remember My Mother

Grammar

1. Sequence of Tenses
2. Modal Auxiliaries
3. Reported Speech

Writing

- \* Notice
- \* Informal Invitation
- \* Letter to Editor
- \* Formal E-mail

## HINDI

पाठ्यपुस्तक- 'गंगा'

गद्य खंड-

पाठ-1 दो बैलों की कथा

पाठ-2 क्या लिखूँ

पाठ-3 संवादहीन

काव्य खंड-

पाठ-8 रैदास के पद

पाठ -9 राम-परशुराम-लक्ष्मण संवाद

पाठ-10 भारति, जय, विजय करें

व्याकरण-

संज्ञा

सर्वनाम

शब्द निर्माण-उपसर्ग, प्रत्यय

मुहावरे ( पाठ्यपुस्तक के आधार पर)

समानार्थी शब्द

रचनात्मक लेखन -

अनुच्छेद लेखन

अनौपचारिक पत्र

चित्र वर्णन

संवाद लेखन

अपठित गद्यांश

## MATHEMATICS

Ch-1, Orienting Yourself: The Use of Coordinates

Ch-2, Introduction to Linear Polynomials

Ch-3 The World of Numbers

Ch-4 Exploring Algebraic Identities

Ch-5 I'm Up and Down, and Round and Round

## SCIENCE

BIOLOGY :

Ch – Cell : The Building Block of Life

Ch – Tissues in Action

PHYSICS :

Ch – Describing Motion Around Us

Ch – How Forces Affect Motion

CHEMISTRY :

Ch – Exploring Mixtures & their Separation

Ch – Earth as a System

## **SOCIAL SCIENCE**

Chapter-2 Shaping of the Earth's Surface

Chapter-3 Atmosphere and Climate

Chapter-4 Early Humans and Beginning of Civilisation.

Chapter-6 Democracy

Chapter-8 Building Blocks in Economics: The problem of Choice.

## **INFORMATION TECHNOLOGY**

**\*Part A Employability Skills\***

Unit 1A:Communication skills I

Unit 2A:Self Management Skill-1

Unit 3A: Information and Communication Technology Skills I

**\*Part B IT Book (402)\***

Unit 1: Introduction to IT-ITeS Industry

Unit 2: Data Entry and Keyboard Skills

Unit 3: Digital Documentation

## **PHYSICAL EDUCATION**

Chapter 1 Health and Diseases

Chapter 2 Growing up with Confidence

Chapter 3 Physical Education

Chapter 4 Physical Fitness

Chapter 5 Sports Training